



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-14092024-257190
CG-TL-E-14092024-257190

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3606]
No. 3606]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2024/भाद्र 22, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2024/BHADRA 22, 1946

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदाराबाद, 13 सितम्बर, 2024

का.आ. 3944(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना, **मोटुमारि – विष्णुपुरम के बीच विद्युतीकरण के साथ दोहरीकरण** के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करता है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (I) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, नंदीगामा, एनटीआर जिला को लिखित रूप में दी जाएगी तथा उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, नंदीगामा, एनटीआर जिला आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा एवं ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना में शामिल की गई भूमि की भू-योजना एवं अन्य विवरण उपलब्ध है तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में इनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में विशेष रेलवे परियोजना, मोटुमारि – विष्णुपुरम के बीच विद्युतीकरण के साथ दोहरीकरण के लिए किसी संरचना सहित या उसके रहित अधिग्रहण की जानेवाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण : यात्री और माल सुविधा के लिए मोटुमारि – विष्णुपुरम के बीच दोहरीकरण, विशेष रेलवे परियोजना।

जिला : एनटीआर

तालुका : जगगय्यपेटा

क्रम सं.	गांव का नाम	आर.एस. सं.	वर्गीकरण	कुल क्षेत्र	भूमि एकड़ में	भूमि हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
01	चिल्लकल्लु	68-3	जी.डी	11.10	0.533	0.2159	कृषि
02	चिल्लकल्लु	58-3	जी.डी	11.82	0.026	0.0105	कृषि
03	चिल्लकल्लु	59-3	जी.डी	1.28	0.319	0.1292	कृषि
04	चिल्लकल्लु	60-1सी	जी.डी	0.58	0.415	0.1681	कृषि
05	चिल्लकल्लु	60-2बी	जी.डी	10.90			कृषि
06	चिल्लकल्लु	70-3	जी.डी	1.12	0.191	0.0774	कृषि
07	चिल्लकल्लु	69-2सी	जी.डी	0.84	0.281	0.1138	कृषि
08	चिल्लकल्लु	81-2	जी.डी	0.90	0.318	0.1288	कृषि
09	चिल्लकल्लु	79-2	जी.डी	2.64	0.040	0.0162	कृषि
10	चिल्लकल्लु	80-2डी	जी.डी	3.15	0.985	0.3989	कृषि
11	चिल्लकल्लु	88-4बी	जी.डी	0.37	0.050	0.0202	कृषि
12	चिल्लकल्लु	88-2बी	जी.डी	2.37			कृषि
13	चिल्लकल्लु	89-1बी	जी.डी	9.09	0.026	0.0105	कृषि
14	चिल्लकल्लु	89-2बी	जी.डी	0.06			कृषि
15	चिल्लकल्लु	101-3सी	जी.डी	0.64	0.057	0.0231	कृषि
16	चिल्लकल्लु	101-3डी	जी.डी	3.25			कृषि
17	चिल्लकल्लु	108-1सी	जी.डी	1.73	0.414	0.1677	कृषि
18	चिल्लकल्लु	108-2सी	जी.डी	0.25			कृषि
19	चिल्लकल्लु	106-3	जी.डी	2.23	0.320	0.1296	कृषि
20	चिल्लकल्लु	107	जी.डी	5.40	0.025	0.0101	कृषि
21	चिल्लकल्लु	104-2सी	जी.डी	4.15	0.324	0.1312	कृषि
22	चिल्लकल्लु	120-2सी1	जी.डी	1.07	0.150	0.0608	कृषि

23	चिल्लकल्लु	120-1C1ए	जी.डी	4.59			कृषि
24	चिल्लकल्लु	120-1सी2	जी.डी	7.26			कृषि
25	चिल्लकल्लु	88-1	जी.डी	0.14	0.020	0.0080	तालाब
26	चिल्लकल्लु	100	जी.डी	0.02	0.004	0.0016	कालीदरी
27	चिल्लकल्लु	116	जी.पी	7.67	0.150	0.0608	स्थानीय तिधि सडक (राजमार्ग-65)
कुल				94.62	4.648	1.8824	
01	के. अग्रहारम	17/1	जी.डी	54.72	0.920	0.3726	(ईस्पात संयंत्र भूमि)
02	के. अग्रहारम	18	जी.डी	28.22	0.910	0.3686	(ईस्पात संयंत्र भूमि)
03	के. अग्रहारम	9	जी.पी	106.31	1.233	0.4994	पालेरु नदी
कुल				189.25	3.063	1.2406	
1	जग्गय्यपेटा	345	जी.डी	13.60	0.659	0.2669	कृषि
2	जग्गय्यपेटा	350-2ए1	जी.डी	3.29	5.149	2.0853	कृषि
3	जग्गय्यपेटा	350-3ए1	जी.डी	1.31			कृषि
4	जग्गय्यपेटा	350-3B1ए	जी.डी	0.50			कृषि
5	जग्गय्यपेटा	350-1	जी.डी	3.68			कृषि
6	जग्गय्यपेटा	350-3सी1	जी.डी	0.80			कृषि
7	जग्गय्यपेटा	350-4ए	जी.डी	3.50			कृषि
8	जग्गय्यपेटा	350-5बी	जी.डी	4.59			कृषि
9	जग्गय्यपेटा	362-3ए	जी.डी	1.98			1.007
10	जग्गय्यपेटा	362-3सी	जी.डी	0.98	कृषि		
11	जग्गय्यपेटा	389-1सी	जी.डी	14.73	0.425	0.1721	कृषि
12	जग्गय्यपेटा	348-2डी	जी.डी	0.05	0.043	0.0174	कृषि
13	जग्गय्यपेटा	388-1सी	जी.डी	5.16	0.075	0.0304	कृषि
14	जग्गय्यपेटा	420-1ए	जी.डब्ल्यू	1.34	0.320	0.1296	कृषि
15	जग्गय्यपेटा	420-2ए	जी.डब्ल्यू	2.19			कृषि
16	जग्गय्यपेटा	420-2सी	जी.डब्ल्यू	0.20			कृषि
17	जग्गय्यपेटा	433-1सी	जी.डी	0.22	0.442	0.1788	कृषि
18	जग्गय्यपेटा	433-2सी	जी.डी	0.32			कृषि

19	जग्गय्यपेटा	426-2सी	जी.डी	0.43	0.300	0.1215	कृषि
20	जग्गय्यपेटा	470-3ए	जी.डी	0.99	0.043	0.0174	कृषि
21	जग्गय्यपेटा	470-2बी	जी.डी	0.66			कृषि
22	जग्गय्यपेटा	454-3	जी.डी	0.13	0.05	0.0202	कृषि
23	जग्गय्यपेटा	453-2	जी.डी	2.08	0.057	0.0231	कृषि
24	जग्गय्यपेटा	452-1बी	जी.डी	1.38	0.186	0.0753	कृषि
25	जग्गय्यपेटा	452-2बी	जी.डी	1.40			कृषि
26	जग्गय्यपेटा	451-2बी	जी.डी	0.18	0.631	0.2556	कृषि
27	जग्गय्यपेटा	451-3बी	जी.डी	0.94			कृषि
28	जग्गय्यपेटा	450-2	जी.डी	1.39	0.257	0.1041	कृषि
29	जग्गय्यपेटा	437-2बी	जी.डी	0.50	0.344	0.1393	कृषि
30	जग्गय्यपेटा	437-1सी	जी.डी	0.56			कृषि
31	जग्गय्यपेटा	436-1सी	जी.डी	0.93	0.411	0.1665	कृषि
32	जग्गय्यपेटा	436-2सी	जी.डी	0.73			कृषि
33	जग्गय्यपेटा	435-2बी	जी.डी	0.82	0.293	0.1187	कृषि
34	जग्गय्यपेटा	434-2सी	जी.डी	0.41	0.191	0.0774	कृषि
35	जग्गय्यपेटा	396-2A2एच 11ए	जी.डी	284.93	6.617	2.6799	कृषि
36	जग्गय्यपेटा	396-1	जी.डी	5.65			कृषि
37	जग्गय्यपेटा	349	जी.पी	9.88	0.164	0.0664	पुंता
38	जग्गय्यपेटा	361-1	जी.पी	0.31	0.007	0.0028	रेलवे भूमि
39	जग्गय्यपेटा	457-6बी	जी.पी	0.28	0.104	0.0421	रेलवे भूमि
40	जग्गय्यपेटा	417	जी.पी	0.32	0.201	0.0814	नहर
41	जग्गय्यपेटा	424-2	जी.पी	0.14	0.044	0.0178	बाइपास रोड
42	जग्गय्यपेटा	422-1बी	जी.पी	0.22	0.114	0.0462	बाइपास रोड
43	जग्गय्यपेटा	427-1ए	जी.पी	0.11	0.275	0.1114	रेलवे भूमि
44	जग्गय्यपेटा	356-2	जी.पी	5.11	1.053	0.4265	ग्रामकंटम (असाइन्ड)
45	जग्गय्यपेटा	467-2बी	जी.पी	0.47	0.043	0.0174	तिप्पा
46	जग्गय्यपेटा	425	जी.पी	1.29	0.021	0.0085	
47	जग्गय्यपेटा	458-1	जी.पी	9.09	1.245	0.5042	शमशान भूमि
कुल				389.77	20.771	8.4120	

जिला : एनटीआर

तालुका : वत्सवाई

क्रम सं.	गांव का नाम	आर.एस. सं.	वर्गीकरण	कुल क्षेत्र	भूमि एकड़ में	भूमि हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
01	काकरवै	102/1सी	जी.डी	0.070	0.1330	0.0539	कृषि
02	काकरवै	102/5B2 सी	जी.डी	0.890			कृषि
03	काकरवै	102/6B2 सी	जी.डी	3.630			कृषि
04	काकरवै	69/1सी	जी.डी	2.150	0.1070	0.0433	कृषि
05	काकरवै	69/2सी	जी.डी	6.450			कृषि
06	काकरवै	47/3सी	जी.डी	0.960	0.1170	0.0474	कृषि
07	काकरवै	47/4सी	जी.डी	2.800			कृषि
08	काकरवै	78/1डी	जी.डी	1.360	0.0820	0.0332	कृषि
09	काकरवै	78/4बी	जी.डी	2.450			कृषि
10	काकरवै	78/5बी	जी.डी	2.520			कृषि
11	काकरवै	68/3सी	जी.डी	0.120	0.0100	0.0041	कृषि
12	काकरवै	73/1सी	जी.डी	4.280	0.0140	0.0057	कृषि
13	काकरवै	56	जी.डी	5.570	0.0140	0.0057	कृषि
14	काकरवै	45	जी.डी	4.340	0.0140	0.0057	कृषि
15	काकरवै	57	जी.पी	1.050	0.0140	0.0057	पुंता
16	काकरवै	48	जी.पी	1.050			पुंता
17	काकरवै	73/1डी	जी.पी	0.060			रेलवे
कुल				39.75	0.5050	0.2045	
क्रम सं.	गांव का नाम	आर.एस. सं.	वर्गीकरण	कुल क्षेत्र	भूमि एकड़ में	भूमि हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
01	कंबमपाडु	36/2	जी.डी	7.84	0.525	0.2126	कृषि
02	कंबमपाडु	55/1सी	जी.डी	2.05	0.851	0.3447	कृषि
03	कंबमपाडु	55/2सी	जी.डी	2.39			कृषि
04	कंबमपाडु	55/3सी	जी.डी	3.27			कृषि
05	कंबमपाडु	39/3बी	जी.डी	0.64	0.561	0.2272	कृषि
06	कंबमपाडु	39/4सी	जी.डी	1.38			कृषि
07	कंबमपाडु	54/1बी	जी.डी	9.52	0.901	0.3649	कृषि
08	कंबमपाडु	54/2बी	जी.डी	5.38			कृषि
कुल				32.47	2.838	1.1494	

क्रम सं.	गांव का नाम	आर.एस. सं.	वर्गीकरण	कुल क्षेत्र	भूमि एकड़ में	भूमि हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
01	वत्सवाई	432/5सी	जी.डी	2.580	0.5590	0.2426	कृषि
02	वत्सवाई	432/6ए3	जी.डी				कृषि
03	वत्सवाई	432/6बी3	जी.डी				कृषि
04	वत्सवाई	432/7सी	जी.डी	1.330			कृषि
05	वत्सवाई	432/8सी	जी.डी	1.500			कृषि
06	वत्सवाई	417/8सी	जी.डी	0.250	0.4050	0.1640	कृषि
07	वत्सवाई	417/10बी	जी.डी	0.260			कृषि
08	वत्सवाई	291/1सी1	जी.डी	6.920	2.5270	1.0234	कृषि
09	वत्सवाई	291/3	जी.डी	1.890			कृषि
10	वत्सवाई	299/3सी	जी.डी	0.630	0.3070	0.1243	कृषि
11	वत्सवाई	299/3ए	जी.डी	2.600			कृषि
12	वत्सवाई	435/2	जी.डी	4.150	0.0420	0.0170	कृषि
13	वत्सवाई	434/2सी	जी.डी	1.070	0.1160	0.0470	कृषि
14	वत्सवाई	437/1बी	जी.डी	4.770	0.1820	0.0737	कृषि
15	वत्सवाई	423/5सी	जी.डी	0.060	0.3200	0.1296	कृषि
16	वत्सवाई	430/1सी	जी.डी	2.210	0.1570	0.0636	कृषि
17	वत्सवाई	420/9बी	जी.डी	1.330	0.0710	0.0288	कृषि
18	वत्सवाई	419/1सी	जी.डी	0.640	0.1330	0.0539	कृषि
19	वत्सवाई	419/2सी	जी.डी	1.000			कृषि
20	वत्सवाई	419/3बी	जी.डी	1.290			कृषि
21	वत्सवाई	419/4बी	जी.डी	2.530			कृषि
22	वत्सवाई	418/3सी	जी.डी	5.000	0.2000	0.0810	कृषि
23	वत्सवाई	289/1ए	जी.डी	5.890	2.1690	0.8784	कृषि
24	वत्सवाई	289/1सी	जी.डी	0.640			कृषि
25	वत्सवाई	289/2बी	जी.डी	4.090			कृषि
26	वत्सवाई	292/1	जी.डी	0.190	0.1690	0.0684	कृषि
27	वत्सवाई	292/4	जी.डी	11.190			कृषि
28	वत्सवाई	306/3ए	जी.डी	5.100	0.7290	0.2952	कृषि
29	वत्सवाई	306/4ए	जी.डी	3.420			कृषि
30	वत्सवाई	306/5ए	जी.डी	0.820			कृषि
31	वत्सवाई	307/1ए	जी.डी	0.860	0.9950	0.4030	कृषि

32	वत्सवाई	307/2ए	जी.डी	13.620			कृषि
33	वत्सवाई	304/1ए	जी.डी	3.490	0.0180	0.0073	कृषि
34	वत्सवाई	304/2ए	जी.डी	0.860			कृषि
35	वत्सवाई	308/1ए1	जी.डी	1.900	0.3720	0.1507	कृषि
36	वत्सवाई	308/1सी1	जी.डी	1.360			कृषि
37	वत्सवाई	309/1ए3ए	जी.डी	0.530	0.2330	0.0944	कृषि
38	वत्सवाई	309/1ए3 सी	जी.डी	1.010			कृषि
39	वत्सवाई	297/1सी	जी.डी	0.250	0.3680	0.1490	कृषि
40	वत्सवाई	297/2बी	जी.डी	1.710			कृषि
41	वत्सवाई	297/5सी	जी.डी	1.120			कृषि
42	वत्सवाई	297/6सी	जी.डी	1.820			कृषि
43	वत्सवाई	291/2	जी.पी	4.160	0.5430	0.2200	नाली
44	वत्सवाई	293	जी.पी	3.330			सड़क
45	वत्सवाई	296/1	जी.पी	2.540			सड़क
46	वत्सवाई	302/3	जी.पी	1.870			सड़क
47	वत्सवाई	308/1बी	जी.पी	1.800			नाली
48	वत्सवाई	418/2	जी.पी	3.250			रेलवे
कुल				114.73	10.655	4.3153	
क्रम सं.	गांव का नाम	आर.एस. सं.	वर्गीकरण	कुल क्षेत्र	भूमि एकड़ में	भूमि हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
01	लिंगाला	155/3सी	जी.डी	2.09	0.287	0.1162	कृषि
02	लिंगाला	5	जी.डी				कृषि
03	लिंगाला	8सी	जी.डी				कृषि
04	लिंगाला	132/3	जी.डी	0.79	0.094	0.0381	कृषि
05	लिंगाला	136/3	जी.डी	0.27	0.051	0.0207	कृषि
06	लिंगाला	138/3	जी.डी	2.11	0.059	0.0239	कृषि
07	लिंगाला	152/2	जी.पी	2.03	0.021	0.0085	पुंता
08	लिंगाला	156	जी.पी	343.23	0.180	0.0729	शौचालय
कुल				350.52	0.692	0.2803	
क्रम सं.	गांव का नाम	आर.एस. सं.	वर्गीकरण	कुल क्षेत्र	भूमि एकड़ में	भूमि हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
01	चिट्टेला	160/3सी	जी.डी	5.08	0.040	0.0162	कृषि

02	चिट्टेला	165/1बी	जी.डी	15.57	1.222	0.4949	कृषि
03	चिट्टेला	164/2	जी.डी	1.79	0.413	0.1673	कृषि
04	चिट्टेला	168/2सी	जी.डी	2.87	0.339	0.1373	कृषि
05	चिट्टेला	172/3	जी.डी	5.07	0.024	0.0097	कृषि
06	चिट्टेला	171/4	जी.डी	3.21	0.287	0.1162	कृषि
07	चिट्टेला	167	जी.पी	3.96	0.084	0.0340	पोरंबोकु
कुल				37.55	2.409	0.9756	
क्रम सं.	गांव का नाम	आर.एस. सं.	वर्गीकरण	कुल क्षेत्र	भूमि एकड़ में	भूमि हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
01	मक्कपेटा	227/1ए1	जी.डी		0.8170	0.3309	कृषि
02	मक्कपेटा	227/1ए3 बी	जी.डी				कृषि
03	मक्कपेटा	235/1ए1	जी.डी	1.470	0.5040	0.2041	कृषि
04	मक्कपेटा	235/1बी1	जी.डी	0.370			कृषि
05	मक्कपेटा	235/1सी 1	जी.डी	0.610			कृषि
06	मक्कपेटा	235/1डी1 ए	जी.डी	0.570			कृषि
07	मक्कपेटा	235/2ए1 सी	जी.डी	4.240			कृषि
08	मक्कपेटा	235/3ए1 ए	जी.डी	3.500	0.1640	0.0664	कृषि
09	मक्कपेटा	232/1ए1	जी.डी	0.470			कृषि
10	मक्कपेटा	232/1ए3 बी	जी.डी	2.040	0.0740	0.0300	कृषि
11	मक्कपेटा	228/2ए	जी.डी	1.460			कृषि
12	मक्कपेटा	225/1सी 1	जी.डी	2.560	0.4690	0.1899	कृषि
13	मक्कपेटा	225/1सी 3	जी.डी	1.080			कृषि
14	मक्कपेटा	225/1ए1 सी	जी.डी	1.810			कृषि
15	मक्कपेटा	225/1बी	जी.डी	0.850			कृषि
16	मक्कपेटा	236/1ए	जी.डी	0.790	0.1440	0.0583	कृषि
17	मक्कपेटा	236/1सी 2	जी.डी	8.120			कृषि

18	मक़्केटा	231	जी.पी		0.0310	0.0126	नाली
कुल				29.94	2.203	0.8922	कृषि
क्रम सं.	गांव का नाम	आर.एस. सं.	वर्गीकरण	कुल क्षेत्र	भूमि एकड़ में	भूमि हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
01	भीमवरम	72/1सी2बी	जी.डी	6.700	0.333	0.1349	कृषि
02	भीमवरम	72/1ए1ए	जी.डी	0.020			कृषि
03	भीमवरम	73/2सी2ए	जी.डी	0.900	1.444	0.5848	कृषि
04	भीमवरम	73/2सी2सी	जी.डी	1.580			कृषि
05	भीमवरम	75/1ए	जी.डी	3.620	1.082	0.4382	कृषि
06	भीमवरम	75/2ए	जी.डी	0.680			कृषि
07	भीमवरम	76/1ए	जी.डी	8.670	0.330	0.1337	कृषि
08	भीमवरम	76/2ए	जी.डी	0.360			कृषि
09	भीमवरम	95/1	जी.डी	0.060	0.286	0.1158	कृषि
10	भीमवरम	81/2	जी.डी	5.580	0.339	0.1373	कृषि
11	भीमवरम	82/1	जी.डी	2.740	0.562	0.2276	कृषि
12	भीमवरम	87/1	जी.डी	0.590	0.599	0.2426	कृषि
13	भीमवरम	3	जी.डी	15.210			कृषि
14	भीमवरम	83/3ए	जी.डी	5.310	0.335	0.1357	कृषि
15	भीमवरम	84/1ए	जी.डी	2.990	1.449	0.5868	कृषि
16	भीमवरम	84/1सी	जी.डी	1.160			कृषि
17	भीमवरम	84/2ए	जी.डी	0.210			कृषि
18	भीमवरम	84/2सी	जी.डी	2.970			कृषि
19	भीमवरम	64/1	जी.डी	2.200	0.152	0.0616	कृषि
20	भीमवरम	65/1ए	जी.डी	6.940	0.171	0.0693	कृषि
21	भीमवरम	65/2ए	जी.डी	0.070			कृषि
22	भीमवरम	65/2सी	जी.डी	4.060			कृषि
23	भीमवरम	61/बी2सी1	जी.डी	8.430	0.145	0.0587	कृषि
24	भीमवरम	200/3	जी.डी	0.430	0.025	0.0101	कृषि
25	भीमवरम	201/1ए	जी.डी	0.440	0.771	0.3123	कृषि
26	भीमवरम	201/2बी3	जी.डी	3.700			कृषि
27	भीमवरम	201/1बी3	जी.डी	5.750			कृषि
28	भीमवरम	203/1बी1 बी	जी.डी	1.540	0.166	0.0672	कृषि

29	भीमवरम	203/1ए2 सी	जी.डी	2.300			कृषि
30	भीमवरम	206/4बी3	जी.डी	0.300	0.029	0.0117	कृषि
31	भीमवरम	236/1सी	जी.डी	1.750	0.046	0.0186	कृषि
32	भीमवरम	237/2	जी.डी	2.070			कृषि
33	भीमवरम	255/2सी	जी.डी	3.550	0.201	0.0814	कृषि
34	भीमवरम	256/1बी	जी.डी	2.020	0.139	0.0563	कृषि
35	भीमवरम	256/2बी	जी.डी	4.850			कृषि
36	भीमवरम	257/2बी	जी.डी	0.010	0.364	0.1474	कृषि
37	भीमवरम	257/1सी	जी.डी	0.090			कृषि
38	भीमवरम	3	जी.डी	0.080			कृषि
39	भीमवरम	5बी	जी.डी	0.320			कृषि
40	भीमवरम	6बी	जी.डी	3.110			कृषि
41	भीमवरम	8	जी.डी	2.000			कृषि
42	भीमवरम	252/2सी	जी.डी	8.700	0.254	0.1029	कृषि
43	भीमवरम	147/1ए2	जी.डी	5.680	0.084	0.0340	कृषि
44	भीमवरम	71	जी.पी	5.080	0.078	0.0316	पुंता
45	भीमवरम	80	जी.पी	0.800	0.032	0.0130	पुंता
46	भीमवरम	67	जी.पी	8.780	0.245	0.0992	पुंता
47	भीमवरम	208	जी.पी	3.380	0.010	0.0041	पुंता
48	भीमवरम	238/2सी	जी.पी		0.011	0.0045	पुंता
49	भीमवरम	254	जी.पी	35.500	0.426	0.1725	नदी की धारा
50	भीमवरम	85	जी.पी	0.820	0.042	0.0170	पुंता
कुल				184.10	10.15	4.1107	

[फा. सं. : W.Con.182/SRP-02/MTM-VNUP/23-24/243/20A/130924]

मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 13th September, 2024

S.O. 3944(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereafter referred as in as the said Act), central government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, Doubling between Motumarri -Vishnupuram with electrification, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely Revenue Divisional Officer, Nandigama, NTR District, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority namely Revenue Divisional Officer, Nandigama, NTR District shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, Doubling between Motumarri - Vishnupuram with electrification in the state of Andhra Pradesh.

Description of Land in Acquisition: Special Railway Project, Doubling between Motumarri – Vishnupuram for passenger and freight facility.

District: NTR

Taluka: Jaggayapeta

Sl. No.	Village Name	R.S. No.	Classification	Pure Extent	Area in Acre.	Area in hect.	Nature of Land
01	Chillakallu	68-3	G.D	11.10	0.533	0.2159	Agriculture
02	Chillakallu	58-3	G.D	11.82	0.026	0.0105	Agriculture
03	Chillakallu	59-3	G.D	1.28	0.319	0.1292	Agriculture
04	Chillakallu	60-1C	G.D	0.58	0.415	0.1681	Agriculture
05	Chillakallu	60-2B	G.D	10.90			Agriculture
06	Chillakallu	70-3	G.D	1.12	0.191	0.0774	Agriculture
07	Chillakallu	69-2C	G.D	0.84	0.281	0.1138	Agriculture
08	Chillakallu	81-2	G.D	0.90	0.318	0.1288	Agriculture
09	Chillakallu	79-2	G.D	2.64	0.040	0.0162	Agriculture
10	Chillakallu	80-2D	G.D	3.15	0.985	0.3989	Agriculture
11	Chillakallu	88-4B	G.D	0.37	0.050	0.0202	Agriculture
12	Chillakallu	88-2B	G.D	2.37			Agriculture
13	Chillakallu	89-1B	G.D	9.09	0.026	0.0105	Agriculture
14	Chillakallu	89-2B	G.D	0.06			Agriculture
15	Chillakallu	101-3C	G.D	0.64	0.057	0.0231	Agriculture
16	Chillakallu	101-3D	G.D	3.25			Agriculture
17	Chillakallu	108-1C	G.D	1.73	0.414	0.1677	Agriculture
18	Chillakallu	108-2C	G.D	0.25			Agriculture
19	Chillakallu	106-3	G.D	2.23	0.320	0.1296	Agriculture
20	Chillakallu	107	G.D	5.40	0.025	0.0101	Agriculture
21	Chillakallu	104-2C	G.D	4.15	0.324	0.1312	Agriculture
22	Chillakallu	120-2C1	G.D	1.07	0.150	0.0608	Agriculture
23	Chillakallu	120-1C1A	G.D	4.59			Agriculture
24	Chillakallu	120-1C2	G.D	7.26			Agriculture
25	Chillakallu	88-1	G.D	0.14	0.020	0.0080	Cheruvu
26	Chillakallu	100	G.D	0.02	0.004	0.0016	Kalidari
27	Chillakallu	116	G.P	7.67	0.150	0.0608	Local fund Road (NH-65)
TOTAL				94.62	4.648	1.8824	
01	K. Agraharam	17/1	G.D	54.72	0.920	0.3726	(Steel Plant)

							Land)
02	K. Agraharam	18	G.D	28.22	0.910	0.3686	(Steel Plant Land)
03	K. Agraharam	9	G.P	106.31	1.233	0.4994	Paleru River
TOTAL				189.25	3.063	1.2406	
1	Jaggayapeta	345	G.D	13.60	0.659	0.2669	Agriculture
2	Jaggayapeta	350-2A1	G.D	3.29	5.149	2.0853	Agriculture
3	Jaggayapeta	350-3A1	G.D	1.31			Agriculture
4	Jaggayapeta	350-3B1A	G.D	0.50			Agriculture
5	Jaggayapeta	350-1	G.D	3.68			Agriculture
6	Jaggayapeta	350-3C1	G.D	0.80			Agriculture
7	Jaggayapeta	350-4A	G.D	3.50			Agriculture
8	Jaggayapeta	350-5B	G.D	4.59			Agriculture
9	Jaggayapeta	362-3A	G.D	1.98			1.007
10	Jaggayapeta	362-3C	G.D	0.98	Agriculture		
11	Jaggayapeta	389-1C	G.D	14.73	0.425	0.1721	Agriculture
12	Jaggayapeta	348-2D	G.D	0.05	0.043	0.0174	Agriculture
13	Jaggayapeta	388-1C	G.D	5.16	0.075	0.0304	Agriculture
14	Jaggayapeta	420-1A	G.W	1.34	0.320	0.1296	Agriculture
15	Jaggayapeta	420-2A	G.W	2.19			Agriculture
16	Jaggayapeta	420-2C	G.W	0.20			Agriculture
17	Jaggayapeta	433-1C	G.D	0.22	0.442	0.1788	Agriculture
18	Jaggayapeta	433-2C	G.D	0.32			Agriculture
19	Jaggayapeta	426-2C	G.D	0.43	0.300	0.1215	Agriculture
20	Jaggayapeta	470-3A	G.D	0.99	0.043	0.0174	Agriculture
21	Jaggayapeta	470-2B	G.D	0.66			Agriculture
22	Jaggayapeta	454-3	G.D	0.13	0.05	0.0202	Agriculture
23	Jaggayapeta	453-2	G.D	2.08	0.057	0.0231	Agriculture
24	Jaggayapeta	452-1B	G.D	1.38	0.186	0.0753	Agriculture
25	Jaggayapeta	452-2B	G.D	1.40			Agriculture
26	Jaggayapeta	451-2B	G.D.	0.18	0.631	0.2556	Agriculture
27	Jaggayapeta	451-3B	G.D.	0.94			Agriculture
28	Jaggayapeta	450-2	G.D.	1.39	0.257	0.1041	Agriculture
29	Jaggayapeta	437-2B	G.D.	0.50	0.344	0.1393	Agriculture
30	Jaggayapeta	437-1C	G.D.	0.56			Agriculture
31	Jaggayapeta	436-1C	G.D.	0.93	0.411	0.1665	Agriculture
32	Jaggayapeta	436-2C	G.D.	0.73			Agriculture
33	Jaggayapeta	435-2B	G.D.	0.82	0.293	0.1187	Agriculture
34	Jaggayapeta	434-2C	G.D.	0.41	0.191	0.0774	Agriculture
35	Jaggayapeta	396-2A2H11 A	G.D.	284.93	6.617	2.6799	Agriculture
36	Jaggayapeta	396-1	G.D.	5.65			Agriculture
37	Jaggayapeta	349	G.P.	9.88	0.164	0.0664	Puntha
38	Jaggayapeta	361-1	G.P.	0.31	0.007	0.0028	Railway Land
39	Jaggayapeta	457-6B	G.P.	0.28	0.104	0.0421	Railway Land
40	Jaggayapeta	417	G.P.	0.32	0.201	0.0814	Canal
41	Jaggayapeta	424-2	G.P.	0.14	0.044	0.0178	By Pass Road
42	Jaggayapeta	422-1B	G.P.	0.22	0.114	0.0462	By Pass Road
43	Jaggayapeta	427-1A	G.P.	0.11	0.275	0.1114	Railway Land
44	Jaggayapeta	356-2	G.P.	5.11	1.053	0.4265	Gramakantam (Assgnd)

45	Jaggayapeta	467-2B	G.P.	0.47	0.043	0.0174	Tippa
46	Jaggayapeta	425	G.P.	1.29	0.021	0.0085	
47	Jaggayapeta	458-1	G.P.	9.09	1.245	0.5042	Burial ground
TOTAL				389.77	20.771	8.4120	

District: NTR

Taluka: Vatsavai

Sl. No	Village Name	R.S. No.	Classification	Pure Extent	Area in Acre.	Area in hect.	Nature of Land
01	Kakaravai	102/1C	GD	0.070	0.1330	0.0539	Agriculture
02	Kakaravai	102/5B2C	GD	0.890			Agriculture
03	Kakaravai	102/6B2C	GD	3.630			Agriculture
04	Kakaravai	69/1C	GD	2.150	0.1070	0.0433	Agriculture
05	Kakaravai	69/2C	GD	6.450			Agriculture
06	Kakaravai	47/3C	GD	0.960	0.1170	0.0474	Agriculture
07	Kakaravai	47/4C	GD	2.800			Agriculture
08	Kakaravai	78/1D	GD	1.360	0.0820	0.0332	Agriculture
09	Kakaravai	78/4B	GD	2.450			Agriculture
10	Kakaravai	78/5B	GD	2.520			Agriculture
11	Kakaravai	68/3C	GD	0.120	0.0100	0.0041	Agriculture
12	Kakaravai	73/1C	GD	4.280	0.0140	0.0057	Agriculture
13	Kakaravai	56	GD	5.570	0.0140	0.0057	Agriculture
14	Kakaravai	45	GD	4.340	0.0140	0.0057	Agriculture
15	Kakaravai	57	GP	1.050	0.0140	0.0057	Puntha
16	Kakaravai	48	GP	1.050			Puntha
17	Kakaravai	73/1D	GP	0.060			Railways
TOTAL				39.75	0.5050	0.2045	
SL. No	Village Name	R.S. No.	Classification	Pure Extent	Area in Acre.	Area in hect.	Nature of Land
01	Kambampadu	36/2	GD	7.84	0.525	0.2126	Agriculture
02	Kambampadu	55/1c	GD	2.05	0.851	0.3447	Agriculture
03	Kambampadu	55/2c	GD	2.39			Agriculture
04	Kambampadu	55/3c	GD	3.27			Agriculture
05	Kambampadu	39/3B	GD	0.64	0.561	0.2272	Agriculture
06	Kambampadu	39/4C	GD	1.38			Agriculture
07	Kambampadu	54/1B	GD	9.52	0.901	0.3649	Agriculture
08	Kambampadu	54/2B	GD	5.38			Agriculture
TOTAL				32.47	2.838	1.1494	
SL. No	Village Name	R.S. No.	Classification	Pure Extent	Area in Acre.	Area in hect.	Nature of Land
01	Vatsavai	432/5C	GD	2.580	0.5590	0.2426	Agriculture
02	Vatsavai	432/6A3	GD				Agriculture
03	Vatsavai	432/6B3	GD				Agriculture
04	Vatsavai	432/7C	GD	1.330	0.4050	0.1640	Agriculture
05	Vatsavai	432/8C	GD	1.500			Agriculture
06	Vatsavai	417/8C	GD	0.250			Agriculture
07	Vatsavai	417/10B	GD	0.260	2.5270	1.0234	Agriculture
08	Vatsavai	291/1C1	GD	6.920			Agriculture
09	Vatsavai	291/3	GD	1.890	0.3070	0.1243	Agriculture
10	Vatsavai	299/3C	GD	0.630			Agriculture
11	Vatsavai	299/3A	GD	2.600			Agriculture
12	Vatsavai	435/2	GD	4.150	0.0420	0.0170	Agriculture
13	Vatsavai	434/2C	GD	1.070	0.1160	0.0470	Agriculture
14	Vatsavai	437/1B	GD	4.770	0.1820	0.0737	Agriculture
15	Vatsavai	423/5C	GD	0.060	0.3200	0.1296	Agriculture
16	Vatsavai	430/1C	GD	2.210	0.1570	0.0636	Agriculture
17	Vatsavai	420/9B	GD	1.330	0.0710	0.0288	Agriculture
18	Vatsavai	419/1C	GD	0.640			Agriculture
19	Vatsavai	419/2C	GD	1.000	0.1330	0.0539	Agriculture

20	Vatsavai	419/3B	GD	1.290			Agriculture
21	Vatsavai	419/4B	GD	2.530			Agriculture
22	Vatsavai	418/3C	GD	5.000	0.2000	0.0810	Agriculture
23	Vatsavai	289/1A	GD	5.890	2.1690	0.8784	Agriculture
24	Vatsavai	289/1C	GD	0.640			Agriculture
25	Vatsavai	289/2B	GD	4.090			Agriculture
26	Vatsavai	292/1	GD	0.190	0.1690	0.0684	Agriculture
27	Vatsavai	292/4	GD	11.190			Agriculture
28	Vatsavai	306/3A	GD	5.100	0.7290	0.2952	Agriculture
29	Vatsavai	306/4A	GD	3.420			Agriculture
30	Vatsavai	306/5A	GD	0.820			Agriculture
31	Vatsavai	307/1A	GD	0.860	0.9950	0.4030	Agriculture
32	Vatsavai	307/2A	GD	13.620			Agriculture
33	Vatsavai	304/1A	GD	3.490	0.0180	0.0073	Agriculture
34	Vatsavai	304/2A	GD	0.860			Agriculture
35	Vatsavai	308/1A1	GD	1.900	0.3720	0.1507	Agriculture
36	Vatsavai	308/1C1	GD	1.360			Agriculture
37	Vatsavai	309/1A3A	GD	0.530	0.2330	0.0944	Agriculture
38	Vatsavai	309/1A3C	GD	1.010			Agriculture
39	Vatsavai	297/1C	GD	0.250	0.3680	0.1490	Agriculture
40	Vatsavai	297/2B	GD	1.710			Agriculture
41	Vatsavai	297/5C	GD	1.120			Agriculture
42	Vatsavai	297/6C	GD	1.820			Agriculture
43	Vatsavai	291/2	GP	4.160	0.5430	0.2200	Kaluva
44	Vatsavai	293	GP	3.330			Road
45	Vatsavai	296/1	GP	2.540			Road
46	Vatsavai	302/3	GP	1.870			Road
47	Vatsavai	308/1B	GP	1.800			Kaluva
48	Vatsavai	418/2	GP	3.250			Railways
TOTAL				114.73	10.655	4.3153	
SL. No	Village Name	R.S. No.	Classification	Pure Extent	Area in Acre.	Area in hect.	Nature of Land
01	Lingala	155/3C	GD	2.09	0.287	0.1162	Agriculture
02	Lingala	5	GD				Agriculture
03	Lingala	8c	GD				Agriculture
04	Lingala	132/3	GD	0.79	0.094	0.0381	Agriculture
05	Lingala	136/3	GD	0.27	0.051	0.0207	Agriculture
06	Lingala	138/3	GD	2.11	0.059	0.0239	Agriculture
07	Lingala	152/2	GP	2.03	0.021	0.0085	Puntha
08	Lingala	156	GP	343.23	0.180	0.0729	Payakhana
TOTAL				350.52	0.692	0.2803	
SL. No	Village Name	R.S. No.	Classification	Pure Extent	Area in Acre.	Area in hect.	Nature of Land
01	Chittela	160/3C	GD	5.08	0.040	0.0162	Agriculture
02	Chittela	165/1B	GD	15.57	1.222	0.4949	Agriculture
03	Chittela	164/2	GD	1.79	0.413	0.1673	Agriculture
04	Chittela	168/2C	GD	2.87	0.339	0.1373	Agriculture
05	Chittela	172/3	GD	5.07	0.024	0.0097	Agriculture
06	Chittela	171/4	GD	3.21	0.287	0.1162	Agriculture
07	Chittela	167	GP	3.96	0.084	0.0340	Poramboku
TOTAL				37.55	2.409	0.9756	
SL. No	Village Name	R.S. No.	Classification	Pure Extent	Area in Acre.	Area in hect.	Nature of Land
01	Makkapeta	227/1A1	GD		0.8170	0.3309	Agriculture
02	Makkapeta	227/1A3B	GD				Agriculture
03	Makkapeta	235/1A1	GD	1.470	0.5040	0.2041	Agriculture
04	Makkapeta	235/1B1	GD	0.370			Agriculture
05	Makkapeta	235/1C1	GD	0.610			Agriculture
06	Makkapeta	235/1D1A	GD	0.570			Agriculture

07	Makkapeta	235/2A1C	GD	4.240			Agriculture
08	Makkapeta	235/3A1A	GD	3.500			Agriculture
09	Makkapeta	232/1A1	GD	0.470	0.1640	0.0664	Agriculture
10	Makkapeta	232/1A3B	GD	2.040			Agriculture
11	Makkapeta	228/2A	GD	1.460	0.0740	0.0300	Agriculture
12	Makkapeta	225/1C1	GD	2.560	0.4690	0.1899	Agriculture
13	Makkapeta	225/1C3	GD	1.080			Agriculture
14	Makkapeta	225/1A1C	GD	1.810			Agriculture
15	Makkapeta	225/1B	GD	0.850			Agriculture
16	Makkapeta	236/1A	GD	0.790	0.1440	0.0583	Agriculture
17	Makkapeta	236/1C2	GD	8.120			Agriculture
18	Makkapeta	231	GP		0.0310	0.0126	Kaluva
TOTAL				29.94	2.203	0.8922	Agriculture
SL. No	Village Name	R.S. No.	Classification	Pure Extent	Area in Acre.	Area in hect.	Nature of Land
01	Bhimavaram	72/1C2B	GD	6.700	0.333	0.1349	Agriculture
02	Bhimavaram	72/1A1A	GD	0.020			Agriculture
03	Bhimavaram	73/2C2A	GD	0.900	1.444	0.5848	Agriculture
04	Bhimavaram	73/2C2C	GD	1.580			Agriculture
05	Bhimavaram	75/1A	GD	3.620	1.082	0.4382	Agriculture
06	Bhimavaram	75/2A	GD	0.680			Agriculture
07	Bhimavaram	76/1A	GD	8.670	0.330	0.1337	Agriculture
08	Bhimavaram	76/2A	GD	0.360			Agriculture
09	Bhimavaram	95/1	GD	0.060	0.286	0.1158	Agriculture
10	Bhimavaram	81/2	GD	5.580	0.339	0.1373	Agriculture
11	Bhimavaram	82/1	GD	2.740	0.562	0.2276	Agriculture
12	Bhimavaram	87/1	GD	0.590	0.599	0.2426	Agriculture
13	Bhimavaram	3	GD	15.210			Agriculture
14	Bhimavaram	83/3A	GD	5.310	0.335	0.1357	Agriculture
15	Bhimavaram	84/1A	GD	2.990	1.449	0.5868	Agriculture
16	Bhimavaram	84/1C	GD	1.160			Agriculture
17	Bhimavaram	84/2A	GD	0.210			Agriculture
18	Bhimavaram	84/2C	GD	2.970			Agriculture
19	Bhimavaram	64/1	GD	2.200	0.152	0.0616	Agriculture
20	Bhimavaram	65/1A	GD	6.940	0.171	0.0693	Agriculture
21	Bhimavaram	65/2A	GD	0.070			Agriculture
22	Bhimavaram	65/2C	GD	4.060			Agriculture
23	Bhimavaram	61/B2C1	GD	8.430	0.145	0.0587	Agriculture
24	Bhimavaram	200/3	GD	0.430	0.025	0.0101	Agriculture
25	Bhimavaram	201/1A	GD	0.440	0.771	0.3123	Agriculture
26	Bhimavaram	201/2B3	GD	3.700			Agriculture
27	Bhimavaram	201/1B3	GD	5.750			Agriculture
28	Bhimavaram	203/1B1B	GD	1.540	0.166	0.0672	Agriculture
29	Bhimavaram	203/1A2C	GD	2.300			Agriculture
30	Bhimavaram	206/4B3	GD	0.300	0.029	0.0117	Agriculture
31	Bhimavaram	236/1C	GD	1.750	0.046	0.0186	Agriculture
32	Bhimavaram	237/2	GD	2.070			Agriculture
33	Bhimavaram	255/2C	GD	3.550	0.201	0.0814	Agriculture
34	Bhimavaram	256/1B	GD	2.020	0.139	0.0563	Agriculture
35	Bhimavaram	256/2B	GD	4.850			Agriculture
36	Bhimavaram	257/2B	GD	0.010	0.364	0.1474	Agriculture
37	Bhimavaram	257/1C	GD	0.090			Agriculture
38	Bhimavaram	3	GD	0.080			Agriculture
39	Bhimavaram	5B	GD	0.320			Agriculture
40	Bhimavaram	6B	GD	3.110			Agriculture
41	Bhimavaram	8	GD	2.000			Agriculture
42	Bhimavaram	252/2C	GD	8.700	0.254	0.1029	Agriculture
43	Bhimavaram	147/1A2	GD	5.680	0.084	0.0340	Agriculture
44	Bhimavaram	71	GP	5.080	0.078	0.0316	Puntha
45	Bhimavaram	80	GP	0.800	0.032	0.0130	Puntha

46	Bhimavaram	67	GP	8.780	0.245	0.0992	Puntha
47	Bhimavaram	208	GP	3.380	0.010	0.0041	Puntha
48	Bhimavaram	238/2C	GP		0.011	0.0045	Puntha
49	Bhimavaram	254	GP	35.500	0.426	0.1725	Vagu
50	Bhimavaram	85	GP	0.820	0.042	0.0170	Puntha
TOTAL				184.10	10.15	4.1107	

[F. No. : W.Con.182/SRP-02/MTM-VNUP/23-24/243/20A/130924]

MOTHILAL BHOOKYA, Chief Engineer/Con-II